



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 कार्तिक 1937 (श०)

(सं० पटना 1252) पटना, शुक्रवार, 6 नवम्बर 2015

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

16 अप्रैल 2015

सं० 9/आरोप (राज०) (उ०)-2-12/2012-1788—मो० मुस्ताक खाँ, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, जहानाबाद के विरुद्ध कार्यों में शिथिलता बरतने, मोबाईल स्वीच ऑफ रखने एवं लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, Zero tolerance Zone की साप्ताहिक बैठक में अनुपस्थित रहने एवं उनकी उदासीनता के कारण दुकान अबंदोवस्त रहने आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-550 दिनांक 28.01.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-265 दिनांक 23.06.2014 द्वारा मो० खाँ के विरुद्ध उनके वर्तमान वेतनमान से दो वेतन वृद्धि कम करते हुए उस पर वेतनमान निर्धारित करने का दण्ड अधिरोपित करने हेतु आयोग से परामर्श/अभिमत की मांग की गयी थी।

2. विभागीय पत्रांक-2905 दिनांक 09.07.2014 द्वारा मो० मुस्ताक खाँ के दिनांक 30.06.2014 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त दण्ड के अप्रभावी हो जाने के कारण प्रस्ताव वापस लिया गया है।

3. विभागीय संकल्प-2894 दिनांक 08.07.2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम-43 (बी०) के तहत उक्त विभागीय कार्यवाही को सम्परिवर्तित किया गया है।

4. विभागीय पत्रांक-3024 दिनांक 16.07.2014 द्वारा मो० मुस्ताक खाँ को जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 18 (3) के अंतर्गत उनसे द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

5. मो० मुस्ताक खाँ द्वारा दिनांक 31.07.2014 को अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया है, जिसमें उन्होंने तथ्यों एवं साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया है, जो पूर्व में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अतएव उनका बचाव बयान स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

6. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मो० खाँ के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम-139 (C) के तहत 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन से कटौती करने का निर्णय लिया गया है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7. विभागीय पत्रांक-4815 दिनांक 10.11.14 द्वारा मो० मुस्ताक खाँ, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) कटौती करने के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/अभिमत की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-2508 दिनांक 22.01.15 द्वारा परामर्श

दिया गया है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत पेंशन से कटौती के विनिश्चित दण्ड प्रस्तावों में आयोग की सहमति अथवा अभिमत प्राप्त किये जाने का प्रावधान नहीं है।

8. अतएव पूर्ण विचारोपरांत बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 139 (C) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मो० मुस्ताक खाँ, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) कटौति करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
अभय राज,  
सरकार के विशेष सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1252-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>